



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

4 Aasadh, 1942 (S)

No. 302

Ranchi, Thursday, 25th June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 34/2020 – State Tax

S.O. No. 50, Dated- 25th June, 2020 :- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, Notification No. 21/2019-State Tax, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide number S.O. No. 58, dated the 28th June, 2019, namely:–

In the said notification,–

(i) in the second paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, for the quarter ending 31st March, 2020, till the 7th day of July, 2020.”;

(ii) in the third paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that the said persons shall furnish the return in **FORM GSTR-4** of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2020, till the 15th day of July, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 3rd of April, 2020

[File.No Va Kar / GST / 01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,
Secretary, Commercial taxes Department

Note: The principal notification No. 21/2019- State Tax, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O.No.58 dated the 28th June, 2019 and was subsequently amended by notification No. 74/2019-State Tax, dated the 10th February, 2020, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 8 dated the 10th February, 2020.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं. 34/2020 – राज्य कर

एस. ओ. सं. 50, दिनांक- 25 जून, 2020 :- झारखंड सरकार, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, झारखंड सरकार, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं. 21/2019-राज्य कर, दिनांक 28 जून, 2019, जिसे एस. ओ. सं. 58, दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) दूसरे अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए झारखंड माल और सेवा कर नियम 2017 के तहत प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में एक ब्यौरा, जिसमें स्व-आकलित कर के भुगतान का विवरण होगा, जुलाई 2020 के 7वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।”;

(ii) तृतीय अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी झारखंड माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई 2020 के 15 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।”।

2. इस अधिसूचना को 3 अप्रैल, 2020 से लागू माना जाएगा।

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सचिव, वाणिज्य-कर विभाग

नोट: मूल अधिसूचना सं. 21/2019- राज्य कर, दिनांक 28 जून, 2019, एस. ओ. सं. 58, दिनांक 28 जून, 2019 के तहत झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसे बाद में अधिसूचना सं. 74/2019- राज्य कर, दिनांक 10 फरवरी, 2020 जिसे एस. ओ. सं. 8, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के तहत झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, से संशोधित किया गया था।